

>

Title: Need to open High Court Bench in Meerut, Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जब पद भार संभाला था उस समय संकेत दिया था कि देश में आम आदमी को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रदेशों में उच्च न्यायालयों की खंडपीठ स्थापित की जानी चाहिए। सरकार द्वारा सस्ता व शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की नीति की घोषणा भी की जाती रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में शीघ्र हाई कोर्ट बेंच स्थापित किए जाने का आश्वासन क्षेत्रीय जनता को दिया गया है। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 45,00,000 से ज्यादा वादों में से लगभग एक चौथाई वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। इस समय वहां 1980 के वादों पर विचार चल रहा है जिनका निर्णय नहीं हुआ है। खंडपीठों तथा जजों की कम संख्या के परिणामस्वरूप जिस गति से उच्च न्यायालयों में इन वादों का निपटारा हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि इन वादों को निपटारने में 100 साल से भी अधिक का समय लगेगा। पुरानी कहावत है - जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। वाद के निर्णय में इतना विलंब किसी भी प्रकार से वादी के हित में नहीं है। यही कारण है कि आम आदमी का न्याय व्यवस्था से विश्वास खत्म हो रहा है। इस तरह से यह सबसे सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की सरकारी नीति के भी विरुद्ध है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ मेरठ में स्थापित करने की मांग निरंतर उठाई जाती रही है। मैंने पहले भी अनेक बार इस मांग को सदन में तथा माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा है लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के वादियों के वर्षों तक वकील की फीस देने तथा इलाहाबाद आने-जाने, खाने-पीने तथा ठहरने का इंतजाम करने में ही खेत तथा मकान बिक जाते हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक पहल करते हुए तत्काल मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना करने का कष्ट करें।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं अपने आपको श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करता हूँ।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again on Monday, the 26th August, 2013 at 11 a.m.

19.18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, August 26, 2013/Bhadrapada 2, 1935 (Saka).

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Moved with the recommendation of the President.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.